

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 4—अक्टूबर 10, 2014 (आश्विन 12, 1936)

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 4—OCTOBER 10, 2014 (ASVINA 12, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

खान मंत्रालय
(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपूर, दिनांक 22 सितम्बर 2014

सं. ए-19012/320/95 स्था. ए—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री नोएल डहंगा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को भारतीय खान ब्यूरो, नागपूर में दिनांक 14.07.2014 (पूर्वाहन) से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

कप्तान एस. एस. चौधरी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं. ए-19011/456/97—स्था-ए—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्रीमती इंदिरा रवीद्रन, को भारतीय खान ब्यूरो, बंगलोर में दिनांक 09.04.2014(पूर्वाहन) से अधिक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) के पद पर नियुक्ती की जाती है।

कप्तान एस. एस. चौधरी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं. ए-19012/488/2010-स्था.-ए-विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्रीमती यू. बी. पाटील, निजी सचिव को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 04.07.2014 (अपराह्न) से वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर पदोन्नति की जाती है।

कप्तान एस. एस. चौधरी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं. ए-19012/543/2014-स्था.-ए-विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री एन. वाय. रामटेके, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एमई) को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 19.08.2014 (पूर्वाह्न) से सहायक खनन अभियंता के पद पर पदोन्नति की जाती है।

कप्तान एस. एस. चौधरी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग
(भारी पानी बोर्ड)

मुंबई-400094, दिनांक 12 सितम्बर 2014

सं. भापाबो/भर्ती/1(16)-कै.का/2014/4523—भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी श्री मिलिन्द बेहरे, सहायक लेखाकार, (पीबी- 2 रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-), आर आर कैट, इंदौर को दिनांक 07.08.2014 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में भारी पानी बोर्ड, मुंबई में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के.एस.पिल्लै
प्रशासन अधिकारी -III

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 जुलाई 2014

सं ए-19011/23/2012-स्था.-II(खण्ड-I)—केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियम, 1965 के नियम-5 के उप-नियम (1) के उपबंध के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा श्री यशराज टोंगिया, निदेशक, उड़ान एवं प्रशिक्षण निदेशालय, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन मंत्रालय की सेवाएं 17 जुलाई, 2014 (अपराह्न) से समाप्त करते हैं।

सुरेन्द्र कुमार
निदेशक (वित्त एवं प्रशासन)

कम्पनी कार्य मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कानपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2014

सं. 560(5)/3733—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है :-

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन संख्या	एस आर एन संख्या
1	हरशिता कमोडिटीस प्राइवेट लिमिटेड	U74992UP2011PTC043844	C03056645
2	स्वास्तिक शेयर एण्ड स्टाक डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड	U67120UP2005PTC029413	C06944771
3	नवनिर्माण इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U19115UP2007PTC034306	C08051963

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	सिन संख्या	एस आर एन संख्या
4	स्वरूप रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	U17210UP2009PTC037251	C08052631
5	भंडारी इन्फ्राप्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2011PTC046001	C08316200
6	रोहिणी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2011PTC047617	C08346793
7	ए डी बी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP1991PTC013415	C08386385
8	आकांक्षा इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड	U31908UP2012PTC050814	C09244500
9	गेट फार इटालियन बिजनेस कन्सल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड	U74992UP2007PTC033068	C09285834
10	तंत्र इन्फ्रानेशल प्राइवेट लिमिटेड	U74900UP2011PTC045336	C09322843
11	दून वैली रोलर फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	U15311UP1980PTC005031	C09632944
12	प्रताप टेलीकाम मार्ट प्राइवेट लिमिटेड	U51101UP2009PTC037095	C09703422
13	वीनस ओवरलैंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड	U63040UP1990PTC011811	C09998444
14	वेलडन कोलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड	U45400UP2007PTC033277	C10508042
15	लक्ष्मी पालीटेक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	U51109UP1982PTC005542	C10818268
16	बीबी टेक हर्बल लिमिटेड	U24233UP2004PLC028383	C11016698
17	एकिन टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड	U72300UP2011PTC043412	C11305265
18	रिंद लीजिंग एण्ड फाइनेंस लिमिटेड	U65910UP1990PLC012537	C12424388

एस पी कुमार
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

कोलकाता, दिनांक 22 सितम्बर 2014

सं. क.र./प.ब./एफटीई/560/2014—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 6 कम्पनियों के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा उक्त कम्पनियों विघटित हो गई हैं :-

क्र. स.	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
1	U51109WB1990PTC048756	अब्सो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
2	U74220WB2009PTC132974	घोष'स डेंटल क्लिनिक एंड लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड
3	U65921WB1963PTC025917	सन ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड
4	U51909WB2012PTC179791	रनडाटा वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड
5	U51909WB2012PTC180037	सुभरेखा रिटेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
6	U70200WB1991PTC053947	जियोकॉनसेप्ट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

सौरभ गौतम
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 8 सितम्बर 2014

सं. कंप/एफटीई/560(5)/2014—कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
1	U74900PN2010PTC137407	ग्रिनव्हिजन कंसल्टन्सी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
2	U72900PN2005PTC021589	एक्सआय अण्ड ग्रोविंग सोलुशंस प्रायव्हेट लिमिटेड
3	U74140PN2007PTC130975	लेक्सेक्स सोलुशंस प्रायव्हेट लिमिटेड
4	U01122MH1997PTC110154	गिड्वानि ग्रीनफिल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड
5	U74999PN2011PTC140747	इंडवे लाईफसर्व प्रायव्हेट लिमिटेड
6	U27300PN2009PTC134553	एल्कोन ग्रटिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेड
7	U72200PN2005PTC020245	एक्संट टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड
8	U29220PN2010PTC137512	इंजिकोन एअरप्रोसेस टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड
9	U74140PN2002PTC017151	थिम फायनांसियल सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
10	U73200PN2011PTC139161	अशोका टेक इन्वेंशन प्रायव्हेट लिमिटेड
11	U27100PN2012PTC142665	ओमसाई फेरोकास्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
12	U73100PN2010PTC136377	युजर पोस्टुलोरिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड
13	U74900PN2012PTC144719	कोविंद बिझनेस रिसर्च अण्ड कन्सल्टिंग सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
14	U74910PN2010PTC137149	अन्सेक मॅनपावर मैनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
15	U30007PN2007PTC129506	अशिश किसंटेग्रट सिस्टिमस प्रायव्हेट लिमिटेड
16	U18101PN2004PTC018977	जिजामाता निटिंग गारमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
17	U52399PN2012PTC141889	एम अॅन्ड एन सेल्स अॅन्ड मैनेजमेंट कंसल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
18	U67190PN2008PTC132137	तनिशा फायनांसियल कंसल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
19	U51228PN2005PTC021379	गुडविल बेव्हेरेजे सेल्स अॅन्ड मार्केटींग प्रायव्हेट लिमिटेड
20	U74900PN2011PTC141010	कोल्हापुर टर्मिनल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
21	U60200PN2011PTC141023	जयगड टर्मिनल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
22	U60200PN2011PTC141022	लवगन टर्मिनल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
23	U60200PN2011PTC141021	सह्याद्रि टर्मिनल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
24	U60200PN2011PTC141020	चोवगुले लॉजिस्टिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
25	U60200PN2011PTC141024	चोवगुले टर्मिनल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
26	U74900PN2011PTC140849	अल्लुरे शेअर ब्रोकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
27	U80221PN2012PTC145229	ट्रिबे एज्युकेशन सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
28	U29130PN2009PTC134405	कोस्वोर्थ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
29	U74200PN2008PTC131605	दिलिप जि. काले आर्चिटेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
30	U14200PN2012PTC142486	एबि मिनेटेक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
31	U15490PN2013FTC146144	सिनोवेदा अशिया प्रायव्हेट लिमिटेड
32	U17219PN2006PLC129050	कल्लप्पन्ना अवाडे हाय-टेक ईंटेग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क लिमिटेड
33	U45200PN2008PTC132067	कॉमपास रेअल्टोर्स अँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
34	U15549PN2004PTC019246	गुडविल बेव्हेरेजे प्रायव्हेट लिमिटेड
35	U67200PN2011PTC141662	ओप्टिमिस्टिक शेअर ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
36	U28992PN2013PTC147979	मेरिटुस मैनुफैक्चरींग प्रायव्हेट लिमिटेड
37	U24241PN1990PTC056678	हाय-क्यू हायजिने प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
38	U72200PN2008PTC132308	जिएम इंफोकॉम्प प्रायव्हेट लिमिटेड
39	U52190PN2010PTC135580	एसए मेडिको लिंक ट्रेड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
40	U85110PN2008PTC131822	लाईफलाईन हॉस्पिटल अँड हेल्थकेअर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
41	U72900PN2012PTC144446	टॅउस सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
42	U74910PN2008PTC132683	शानहिल मॅनपाॅवर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
43	U45202MH1997PTC106908	पायको डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
44	U72200PN2004PTC019684	स्चेन सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
45	U72900PN2005PTC021152	क्वलिटी अस्सुरंस सर्विसेस अँड सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
46	U51400PN2011PTC138256	समर्थ अॅग्री इम्पोर्ट अँड एक्स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
47	U70102PN2006PTC129224	केपिए डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
48	U72300PN2009PTC134783	प्रक्सिस सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
49	U45200PN1999PTC013337	गलानि प्रोपेरेटीज प्रायव्हेट लिमिटेड
50	U18101PN2001PTC016362	निर्मिति गारमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
51	U29300PN2013PTC146955	वल्ड्वाइड पाॅवर सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड
52	U72900PN2012PTC145499	केएपि अॅप्स प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
53	U52100PN2011PTC140124	पिएमसिजि ट्रेडर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
54	U24231PN2005PTC020545	जेपि-फाईन सरफेस टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड
55	U74999PN2007PTC130408	सुमित ट्रेनिंग अँड मैनेजमेंट सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
56	U15495PN2010PTC136392	जितमित्रा फुड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
57	U72200PN2011FTC141379	युनिक्वोटेक्वु इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
58	U74900PN2010PTC136467	अनंता इंफो- सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
59	U72200PN2008PTC132763	एसव्हिबिपि इंफोमैटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
60	U00892PN2006PTC022311	बिज़िसेन्ट्रिक सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
61	U31908PN2012PTC143001	सेरा पॉवर सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
62	U74900PN2011PTC141392	सार्क अलिटेर एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड
63	U74999PN2008PTC131262	क्वेंच एजुकेशनल सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
64	U40106PN2010PTC136841	केजि सोलर एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड
65	U51909PN2010PTC135455	एसएलबि सेल्स अँड मार्केटींग प्रायव्हेट लिमिटेड
66	U74999PN2012PTC142510	जिग्यासा पॅथॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड
67	U34200PN2011PTC141233	प्राईम व्हिल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
68	U80903PN2008PTC132579	किलबिल एज्युटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
69	U26960PN2005PTC021058	विटेकर ब्रोडर्स स्टोन कुशेर प्रायव्हेट लिमिटेड
70	U74900PN2009PTC135154	सार्क एन्ड्रायजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
71	U40106PN2010PTC136840	केजि रिनिवेबल एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड
72	U45202PN1998PLC013152	एसईडब्लु कंस्ट्रक्शन्स (महाराष्ट्रा) प्रायव्हेट लिमिटेड
73	U24233PN2002PTC017531	जेनुइने बयोइंफोमैटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
74	U29268PN2009PTC133566	शार्प्टेक ईन्ज ईक्युपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
75	U29299PN2005PTC020425	पर्वान ईजिनिरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
76	U74999PN2012PTC143257	टेक्नोईगल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
77	U55101PN2009PTC134741	व्हाइट स्पून हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेड
78	U74210PN2005PTC020788	व्हिजनअँटो कंसल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
79	U74999PN2010PTC136987	शार्प व्हिव ऑव्हिशन प्रायव्हेट लिमिटेड
80	U52332PN2007PTC129963	आराआयसि हॉस्पिटलिटि ईक्युपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
81	U72200PN2003PTC017554	इयुकस्टार टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड
82	U45200PN2010PTC136101	सिमप्लय इंफ्रा टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड
83	U25209MH1997PTC109385	क्लासिक एफआरपि प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
84	U28139PN2012PTC143505	पेट्रोलॉन सेफटि ईइलॉकिंग सिस्टिम प्रायव्हेट लिमिटेड
85	U72200PN2002PTC014076	ब्रिहंस बायोरिसेच प्रायव्हेट लिमिटेड
86	U92312PN2001PTC016116	ऑक्टिवा हेर्बल प्रायव्हेट लिमिटेड
87	U72200PN2000PTC015385	चित्रगुप्ता सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
88	U36109PN2012PTC145658	एक्स फ्लोर इंटेरिओर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
89	U74900PN2010PTC135742	डि-लाईट डेकॉरटिव्स प्रायव्हेट लिमिटेड
90	U93000PN2009PTC135062	ग्रेट कमिशन अलिअंस सेर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
91	U74999PN2005PTC021235	वास्तु-सिद्धि रिसर्च सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड
92	U60231PN1997PTC107513	नवजिवन ट्रान्सपोर्ट कम्पनि प्रायव्हेट लिमिटेड
93	U27320PN2012PTC145267	श्री सरस्वति रेमेल्डिंग अँड अलॉयस प्रायव्हेट लिमिटेड
94	U17120PN2009PLC134623	ईचलकरंनजी अँड पेरिफेरल टेक्स्टाईल डेवलपमेंट लिमिटेड
95	U22211MH1995PTC085298	पंडित प्रतिरूप प्रायव्हेट लिमिटेड
96	U45203PN2007PTC131115	स्ट्राटुम इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
97	U40100PN2010PTC137213	अश्विनि पावर प्रायव्हेट लिमिटेड
98	U29100PN2011PTC140886	वेअल्थ इंजिनिअरींग प्रायव्हेट लिमिटेड
99	U74220MH1994PTC078794	भास्कर व्हिजन प्रायव्हेट लिमिटेड
100	U45200PN2010PTC136108	श्री राजलक्ष्मी मुल्टिकॉन इंफ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड
101	U80900PN2009PTC134880	सोलर ऐडुकेशन अँड सिनेमा प्रायव्हेट लिमिटेड
102	U51505PN2004PTC019364	मोपज एक्स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
103	U72200PN2009PTC133502	न्युजकलेक्टिव्ह इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
104	U72900PN2010PTC137496	द्रुटा टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड
105	U74999PN2011PTC139194	व्हिजन ३६० डिग्री इमॅजिन सॉल्युशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
106	U51909PN2012PTC144659	रॉयल ड्रिमलाइफ सेल्स अँड सेर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
107	U73100PN2009PTC133579	श्री साई मल्टिस्पेसिलीटि हॉस्पिटल अँड रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेड
108	U15500PN2010PTC137199	ब्रान्ड वेगॉन बेवेरेजेस प्रायव्हेट लिमिटेड
109	U72900PN2010FTC135978	मेघा वेब सेर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
110	U72200PN2004PTC019851	सोलेंट टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड
111	U72200PN2008PTC131887	ए अँड ए प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
112	U74900PN2007PTC130082	समर एक्सिम प्रायव्हेट लिमिटेड
113	U55101PN2011PTC141556	काशिद हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेड
114	U72200PN2013PTC146653	ज़िऑन सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजीस अँड सॉल्युशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
115	U74999PN2011PTC141286	प्रितम इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायंसेस अँड एड्युकंसल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
116	U74900PN2012PTC144095	साईरत्ना ट्रेड्कॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
117	U45209PN2005PTC021492	एसीई आयटी पार्कस प्रोमोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
118	U72200PN2010PTC137603	कोन्नेट सिस्टमस प्रायव्हेट लिमिटेड
119	U15421PN1993PTC074995	भवानि शुगरकेन प्रोसेस पी लिमिटेड
120	U65992PN2011PTC139976	श्री क्रिपालु चीट फुंड प्रायव्हेट लिमिटेड
121	U93020PN2011PTC138436	पर्पल स्पा सलोन प्रायव्हेट लिमिटेड
122	U72200PN2008PTC132939	एक्लस इंफो प्रायव्हेट लिमिटेड
123	U24232PN1997PTC104922	अमृत औशधि प्रायव्हेट लिमिटेड
124	U29299PN2005PTC021024	श्रियस इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
125	U45200PN2012PTC145198	ओरेय बिल्ड्स अँड इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
126	U74210PN2005PTC021547	कॉर्जेंट पॉवर इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
127	U74999PN2012PTC143727	दर्शन वेअरहाउस प्रायव्हेट लिमिटेड
128	U55101PN2009PTC134296	श्रीमान हॉस्पिटैलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड
129	U27320PN2010PTC135270	जेनरे मेटल कास्ट प्रायव्हेट लिमिटेड

शामराव दत्तात्रय पाटील
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

पुणे-411004, दिनांक 10 सितम्बर 2014

सं. कंपु/एफटीई/560(5)/2014/1529—कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
1	U72200PN2001PTC016100	इजीमॅनेज इंनफोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
2	U40101PN2005PTC020247	गॅम्ब पॉवर सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड
3	U51909PN2013PTC147255	ग्रीनडे फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
4	U72200PN2012PTC144569	सोशलआयडीज सोलुशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
5	U24219PN2005PTC020177	सदगुरु बायो प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
6	U51909PN2010PTC137073	शिप्रा टेलिकोम प्रायव्हेट लिमिटेड
7	U27100PN2011PTC138968	अॅमि मेटल प्रोटक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
8	U70102PN2006PTC022183	एकोस्टार डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
9	U74900PN2010PTC136362	इन्टरनॉरमन टेक्नॉलॉजिस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
10	U72200PN2009PTC134565	स्केल आयटी सोलुशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
11	U24220PN2007PTC130692	पारस कल्लरस प्रायव्हेट लिमिटेड
12	U33302PN2011PTC140729	एसके ओटोमेशन सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड
13	U85199PN2005PTC020521	अजीत रिक्हरसाइड अक्वा क्लब प्रायव्हेट लिमिटेड
14	U74900PN2013PTC146670	विण्ड सपोर्ट एन्रजी प्रायव्हेट लिमिटेड
15	U45209PN2005PTC021101	फोकल डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
16	U63033PN2012PTC142882	अरेबियन मस्ती टुरिजम प्रायव्हेट लिमिटेड
17	U72900PN2011PTC138550	बिग व्हाले आयटी सोलुशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
18	U29253PN2012PTC145570	इलेक्ट्रोकोट फिनीशिंग सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड
19	U99999PN1997PTC106666	फोकस सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
20	U51229PN1994PLC080303	राघवेंद्र टेक्सटाइल ट्रेड्स लिमिटेड
21	U72200PN2011PTC141382	इ जेन्स टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड
22	U93000PN2011PTC141423	एसएस मेडिको डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
23	U80930MH1995PTC084484	एआरसी कन्स्ट्रीग प्रायव्हेट लिमिटेड
24	U45201PN2006PTC021778	ब्ल्यूट सिटी कन्स्ट्रक्शनस प्रायव्हेट लिमिटेड
25	U65993MH1993PTC072261	लायसन इन्व्हेसमेंट अँड फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड
26	U74900PN2013PTC147917	तुसार इनजीनिअरस अँड फॅब्रीकेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
27	U92132PN2005PTC020848	उत्तमपुष्प क्रिएटिव्ह आर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
28	U24232PN2012PTC142256	क्वालि मेद फार्मासिटीकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
29	U72900PN2008PTC132127	कुणसकपरणा टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड
30	U24297PN1998PTC012912	व्हीडीएस टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड
31	U55101PN2003PLC017785	लाइफलाईन हॉलिडेज होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
32	U51397PN2005PLC021391	ग्रोमोर हेल्थकेअर लिमिटेड
33	U25199MH1993PTC072822	किशोर रबर प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
34	U31108PN2010PTC136473	टीकेएच इंजिनीअरर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
35	U40109PN2008PLC132756	अस्मिता पॉवर लिमिटेड
36	U25112PN1995PTC095362	श्री कृष्णा टायर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
37	U24249PN2001PTC016570	ब्ल्यूट पॉलिमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
38	U24230PN2008PTC132548	अटॉन हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
39	U74999PN1980PTC022734	जोग कन्स्ट्रुक्शंस प्रायव्हेट लिमिटेड
40	U52396PN1999PTC013219	पॉली एक्सेल कम्पनी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
41	U45203PN2008PTC133131	फुल्सुंदर वाडेकर इनफ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड
42	U74900PN2009PTC133730	आर एस विन्ड कन्स्ट्रुक्शंस प्रायव्हेट लिमिटेड
43	U55101PN2003PTC018580	साई क्रिश्ना होटल प्रायव्हेट लिमिटेड
44	U74200PN2007PTC130967	फ्रेस्को इंजिनीअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
45	U45200PN2009PTC133446	उरावडे ग्रीन रिअल इस्टेट डेव्लपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
46	U45200PN2009PTC133445	उरावडे ग्रीन कन्स्ट्रक्शंस कम्पनी प्रायव्हेट लिमिटेड
47	U45200PN2008PTC133211	उरावडे ग्रीन हाय-टेक डेव्लपमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
48	U72200PN2007PTC130793	स्पेक्ट्रम नॅनोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड
49	U45202PN2007PTC129529	प्रेमदीप कन्स्ट्रक्शंस प्रायव्हेट लिमिटेड
50	U01122PN2011PTC140777	पनामा बिरवा अँगो प्रायव्हेट लिमिटेड
51	U28112PN2011PTC140223	एस जी एम टेकोफॅब प्रायव्हेट लिमिटेड
52	U67200PN2007PTC130987	सिल्वरलाइन इन्शुरन्स कन्स्ट्रुक्शंस प्रायव्हेट लिमिटेड
53	U15314PN1995PTC090505	महेश्वरी पल्सेस प्रायव्हेट लिमिटेड
54	U40108PN2005PTC021739	चपलान्ग विन्ड फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
55	U72200PN2013PTC148524	ओरिएंट आयटी सोलुशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
56	U72900PN2005PTC021532	अपेक्स व्हेनटेज आयटी एनाब्लेड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
57	U74900PN2009PLC133732	पुणे इंटरनॅशनल एक्जिबिशन अँड कॉन्वेंशन सेंटर मोशि प्रायव्हेट लिमिटेड
58	U72200PN2007PTC129494	सही टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड
59	U72200PN2003PTC018468	डाटावॉल्ट सॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
60	U74920PN2008PTC131610	एरिया सरवेलन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
61	U64202PN2010PTC137534	स्मार्ट टेलि व्हेन्चर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
62	U29259MH1995PTC085320	रिशभ पॅकेजिंग ऑटोमेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
63	U74999PN2005PTC021161	तुरनाराउंड मेडिकल क्लेम प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
64	U31200PN2004PTC019059	पुश्कर थरमल अँड इलेक्ट्रिकल सिस्टीमस प्रायव्हेट लिमिटेड
65	U74900PN2011PTC138274	किरिन नॉलेज कन्सलटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
66	U72200PN2011PTC138635	इफिशियंट बीपीओ सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
67	U65992PN2011PTC140106	संस्कृति चिट फन्ड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
68	U74200PN2009PTC134864	रिदिका इंजिनीअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
69	U85110PN1993PTC071872	नचिकेत हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड
70	U70102PN2004PTC019356	अलोक प्रिमायसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
71	U65992PN2011PTC138733	शिव मंगलमूर्ति चिट फन्ड प्रायव्हेट लिमिटेड
72	U34300PN1989PTC052877	सावकार ऑटोमोबाइल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
73	U51909PN1998PTC012668	मेहर जाल मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
74	U45200PN2011PTC140595	कॉनव्हेक्स कन्स्ट्रक्शनस इक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
75	U70101MH1997PTC111781	ग़लानी ग्रीन फ़िल्ड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
76	U55101PN1989PTC051148	दत्ता रेसॉर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
77	U29299PN2007PTC129584	सुचिन अँक्वा सिस्टीमस प्रायव्हेट लिमिटेड
78	U72200PN1996PTC129334	इंटरफेस सोलुशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
79	U34300PN2005PTC021569	रोटारेक्स इंडिया इंजीनिअरींग प्रायव्हेट लिमिटेड
80	U33100PN2010PTC136258	लुजॉनिक्स टेक्नोक्राट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
81	U51229PN2004PTC018809	अदिती एक्जिम प्रायव्हेट लिमिटेड
82	U74900PN2012PTC145567	श्री सिद्धीविनायक स्कैन अँड इमॅजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
83	U85100PN2008PTC133008	डिव्हिनेशन हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
84	U45202PN2006PTC128408	नीलेश कानडे ग्रुप डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
85	U70102PN2000PTC015201	ओमकार व्हॅली डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
86	U52110PN2005PTC020695	अनमोल सुपर मॉल प्रायव्हेट लिमिटेड
87	U45201PN2004PTC018806	श्रीमंगल प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
88	U72200PN2005PTC020229	ल३ टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड
89	U22219MH1992PTC066424	फुयचरा प्रिन्ट्स अण्ड प्रोसेसर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
90	U00500PN2006PTC022229	शामभवी कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड
91	U45209PN2007PTC130278	द्रविड रिअैलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड
92	U01122PN2012PTC143684	पुरवे अँगिकल्चर प्रायव्हेट लिमिटेड
93	U85110PN2008PTC131868	अल्ट्राव्हिजन रॅडिओलॉजी इमॅजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
94	U55101PN2008PTC131239	डी अण्ड म होटल प्रायव्हेट लिमिटेड
95	U25209PN2000PTC014892	एन के इन्ज पलास्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
96	U55101PN2011PTC141538	कुरिकुलम रेस्टॉरन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
97	U31906PN2012PTC145105	एस ए टेक इन्स्ट्रुमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
98	U70101PN2008PTC131485	मात्रि रिअैलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड
99	U74210PN2005PTC020981	स्पा-टेक-ऑटो कन्सलटन्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
100	U45400PN2012PTC145760	असेन्ट रिअैलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड
101	U74900PN2008PTC132429	जीडब्ल्यूटी सिस्टीमस प्रायव्हेट लिमिटेड
102	U01200PN2010PTC136067	सहयाद्रि इम्यु फार्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड
103	U72900PN2013PTC146856	व्हाइस डाटा सिस्टीम प्रायव्हेट लिमिटेड
104	U93000PN2013PTC148782	म जे व्हॅकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड
105	U85110PN2000PTC014606	रुबी कार्डिअक डायग्नोस्टिक सेंटर प्रायव्हेट लिमिटेड
106	U51229PN2005PTC020830	वरद सेल्स एजन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
107	U72900PN2011PTC141325	व्हेनटेज सॉफ्टेक इनजीनिअरस प्रायव्हेट लिमिटेड
108	U17290PN2013PTC146617	श्रीनाथ कॉटफ़ेब प्रायव्हेट लिमिटेड
109	U41000PN2011PTC139551	बी वाय वॉटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
110	U45209PN2011PTC138804	ग्रीनड्रीम्स रिलेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
111	U74900PN2011PTC138314	व्हॉसिव डिजाइन अण्ड फर्निशिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
112	U74900PN2012PTC143467	आपका हेल्थ सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
113	U74140PN2010PTC136470	अनता फॅसिलीटिज मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
114	U15139PN2009PTC134867	टॉप फुड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
115	U93000PN2012PTC143226	एमआरसी मॅनेजमेंट सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
116	U72900PN2005PTC021062	लॉन्च अडवायज़र्स प्रायव्हेट लिमिटेड
117	U51399PN2003PTC018331	केमिका इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
118	U67120PN2000PTC144617	इरिन ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
119	U28920PN2000PTC144618	उमा प्रेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
120	U67190PN2009PTC134998	इम्पुयट कन्सलटन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड
121	U52100PN2010PTC136224	एपिटोम एक्सपोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
122	U74900PN2013PTC148690	तिकोटिकर-फरनानडिज अडवायज़र्स प्रायव्हेट लिमिटेड
123	U32109PN2003PTC017787	अदिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
124	U18101PN2004PTC019906	राजधानी क्लॉथर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
125	U29299PN2007PTC130951	आदित्य डिजाइन अँड इक्विपमेंट्स वर्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड
126	U67120PN1999PTC013567	राजु मुन्दडा सिकुरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड
127	U24119PN2012FTC144153	केमिऑन प्रायव्हेट लिमिटेड
128	U74900PN2012PTC143572	रेनाइसन्स एचसीइ सोलुशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
129	U27203PN2005PTC020112	गेनमॅक्स इनजीनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
130	U74900PN2010PTC135751	एसके कुलिंग सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
131	U25199PN2005PTC021367	डायमंड मॅट्रेस कम्पनी प्रायव्हेट लिमिटेड
132	U36109PN2012PTC145643	आरटी अॅनिमल होम प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
133	U85120PN2005PTC020591	एसीइ डेन्टल सोलुशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
134	U51399PN2004PTC020004	री-लाइन्स ट्रेड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
135	U15122PN2012PTC143844	रेवा न्यूट्रीशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
136	U74900PN2011PTC139213	एच अँड जी फुयल इन्डीया प्रायव्हेट लिमिटेड
137	U28930PN2012PTC143341	स्पार्क मेकाट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
138	U01403PN2011PTC141643	स्नेहा अँगी इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड
139	U72200PN2010PTC135572	डीएनए बिल्ड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
140	U85199PN2003PTC017571	कुमुदिनी स्वास्थ्य निकेतन प्रायव्हेट लिमिटेड
141	U50200PN2012PTC143839	कौन्डुस्कर ओटो प्रायव्हेट लिमिटेड
142	U74900PN2011PTC139254	सिन्थेसिस इव्हेंट्स अँड हॉस्पिटलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड
143	U30007PN1999PTC013545	कॅनटेक कमपुयड्स प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
144	U72900PN2011PTC138714	ट्रिपर इ ट्रैव्हल सोलुशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
145	U70102PN2008PTC132715	व्हिजन लैण्डमार्क प्रायव्हेट लिमिटेड
146	U74999PN2006PTC128815	अपेक्स इन्टीग्रेटेड सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
147	U29199PN2010PTC137164	इनोव्हेंटिव्ह इन्टीग्रेटेड इलेक्टॉनिक्स सिस्टीमस प्रायव्हेट लिमिटेड
148	U15490PN2013PTC146291	आकान्शा बेव्हेरेजेस अँड अँग्रो प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
149	U70101PN1987PTC044003	तारणहार इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड
150	U85100PN2008PTC131905	टॉपलाइफ हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड
151	U11202PN2012PTC143017	इनरकॉन नेक्स्टजेन फुयल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
152	U29299PN2008PTC132172	अँकुरेट प्रिंसीजन मशिन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
153	U21099MH1991PTC061285	विजय पेपर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड
154	U24240PN2013PTC145944	विब्रान्त सरफ़ैक्टन्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
155	U01400PN2010PTC137832	एजेके अँग्रो प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
156	U72400PN2009PTC134614	रिलेवनसाइट इन्फॉर्मेशन सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
157	U01122PN2010PTC137835	जेएलके अँग्रो फुड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
158	U01400PN2010PTC137834	एआरएन अँग्रो सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
159	U01110PN2009PTC134287	आर. एन. अँग्रो फुड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
160	U29299PN2008PTC131288	हिमराँक इक्विपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड

अमोल शिंदे
सहायक कंपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पुडुच्चेरी-605011, दिनांक 19 सितम्बर 2014

सं. 3(161)/560(5)/2014-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कंपनियाँ विघटित हो गई हैं :-

क्र.सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2721	मेडिफरे प्राइवेट लिमिटेड
2	1769	सिरकुसेन्टरे ई-सल्यूशन्स (आइ) प्राइवेट लिमिटेड
3	2095	तमिल कॉटेज प्राइवेट लिमिटेड

सी.म. कार्ल मार्क्स
कम्पनी रजिस्ट्रार
पुडुच्चेरी

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 8th September 2014

No. F.20/2014-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri A. Ramesh Babu, Judicial Magistrate No. III, Coimbatore as Additional Registrar, on deputation basis, initially for a period of one year with effect from the forenoon of 22nd August, 2014.

M. K. HANJURA
Registrar (Admn.I)

No. F.20/2014-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri Govind K. Rathod, a member of Maharashtra Judicial Service and Officer on Special Duty in Inspection Department, Appellate side in Bombay High Court, as Registrar, on deputation basis, initially for a period of one year with effect from the forenoon of 25th August, 2014.

M. K. HANJURA
Registrar (Admn.I)

New Delhi, the 8th September 2014

No. F.20/2014/SCA(1)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote Shri Kailash Chander, Senior Court Assistant as Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) with effect from the forenoon of 08-09-2014.

BADR-UL-ISLAM
Deputy Registrar (Admn.I)

The 18th September 2014

No. F.20/2014/SCA(1)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri Prathapa Pavan, Court Assistant to the ex-cadre post of Branch Officer (System Administrator) with effect from the afternoon of 16-09-2014.

BADR-UL-ISLAM
Deputy Registrar (Admn.I)

MINISTRY OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

New Delhi, the 22nd September 2014

No. A-19012/320/95-Estt.A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Shri Noel Dahanga, Assistant Administrative Officer, is promoted to the post of Administrative Officer in Indian Bureau of Mines, Nagpur, w.e.f 14.7.2014 (F.N.).

CAPT. S. S. CHAUDHARY
Senior Administrative Officer
For Controller General

No. A-19011/456/97-Estt. A—On the recommendation of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Smt. Indira Ravindran, to the post of Superintending Officer (Ore Dressing) in Indian Bureau of Mines, Bangalore w.e.f. 09.04.2014 (F/N).

CAPT. S. S. CHAUDHARY
Senior Administrative Officer
For Controller General

No. A-19012/488/2010-Estt.A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Smt. U. B. Patil, Private Secretary, is promoted to the post of Senior Private Secretary in Indian Bureau of Mines, Nagpur, w.e.f 04.7.2014 (A.N.).

CAPT. S. S. CHAUDHARY
Senior Administrative Officer
For Controller General

No. A-19012/543/2014-Estt.A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Shri N. Y. Ramteke, Senior Technical Assistant(ME), is promoted to the post of Assistant Mining Engineer in Indian Bureau of Mines, Nagpur, w.e.f 19.08.2014 (F.N.).

CAPT. S. S. CHAUDHARY
Senior Administrative Officer
For Controller General

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400 094, 12th September 2014

No. HWB/R/1(16)-C.O./2014/4523—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Milind Behere, Assistant Accountant (Pay Band-2 ₹ 9,300—34,800/- with Grade Pay ₹ 4,600/-) RRCAT, Indore to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 ₹ 9,300—34,800/- with Grade Pay ₹ 4800/- in Heavy Water Board, Mumbai from the forenoon of 7th August, 2014 until further orders.

K. S. Pillai
Administrative Officer-III

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110 003, the 24th July 2014

No. A-19011/23/2012-E.II(Pt.I).—In pursuance of the provision of sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, the President hereby terminates the services of Shri Yashraj Tongia, Director, Directorate of Flying & Training, Directorate General of Civil Aviation, Ministry of Civil Aviation with effect from 17th July, 2014 (Afternoon).

SURINDER KUMAR
Director (Finance & Admn.)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

O/o. REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kanpur-208001, the 18th September 2014

No. LC/560(5)/3733—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies has this day been struck off from the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved :—

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
1	HRISHITA COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U74992UP2011PTC043844	C03056645
2	SWASTIK SHARES AND STOCK DEALS PRIVATE LIMITED	U67120UP2005PTC029413	C06944771
3	NAVNIRMAN INFRASTRUCTURES INDIA PRIVATE LIMITED.	U19115UP2007PTC034306	C08051963
4	SWAROOP RETAILS PRIVATE LIMITED	U17210UP2009PTC037251	C08052631
5	BHANDARI INFRAPROMOTOR PRIVATE LIMITED	U45400UP2011PTC046001	C08316200
6	ROHINI INFRATECH PRIVATE LIMITED	U45400UP2011PTC047617	C08346793
7	A.D.B. DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U51109UP1991PTC013415	C08386385
8	AKANSHA INFRA PRIVATE LIMITED	U31908UP2012PTC050814	C09244500
9	GATE FOR ITALIAN BUSINESS CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74992UP2007PTC033068	C09285834

Sl No.	Company Name	CIN No.	SRN No.
10	TANTRA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED	U74900UP2011PTC045336	C09322843
11	DOON VALLEY ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED	U15311UP1980PTC005031	C09632944
12	PRATAP TELECOM MART PRIVATE LIMITED	U51101UP2009PTC037095	C09703422
13	VENUS OVERLAND TOURS PRIVATE LIMITED	U63040UP1990PTC011811	C09998444
14	WELLDONE COLONISERS PRIVATE LIMITED	U45400UP2007PTC033277	C10508042
15	LAXMI POLYTEX (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51109UP1982PTC005542	C10818268
16	BB TECH HARBAL LIMITED	U24233UP2004PLC028383	C11016698
17	AKIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72300UP2011PTC043412	C11305265
18	RIND LEASING AND FINANCE LIMITED	U65910UP1990PLC012537	C12424388

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
UP & Uttarakhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies
Kolkata, the 22nd September 2014

No. ROC/WB/FTE/560/2014—Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 6 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved :—

SL No.	CIN	Name of the Company
1	U51109WB1990PTC048756	ABSO SOFTWARE PVT. LTD.
2	U74220WB2009PTC132974	GHOSH'S DENTAL CLINIC & LABORATORY PRIVATE LIMITED
3	U65921WB1963PTC025917	SUN TRADECOM PRIVATE LIMITED
4	U51909WB2012PTC179791	RANDATA VANIJYA PRIVATE LIMITED
5	U51909WB2012PTC180037	SUBHREKHA RETAILERS PRIVATE LIMITED
6	U70200WB1991PTC053947	GEOKONCEPT ENGINEERS PVT LTD

SAURABH GAUTAM
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies
Pune-411004, the 8th September 2014

No. ROCP/FTE/ 560(5)/2014— Notice hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act 1956, that the name of following companies has this day been struck off the Register and the said company is dissolved :—

Sl. No.	CIN	Name of Company
1	U74900PN2010PTC137407	GREENVISION CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	Name of Company
2	U72900PN2005PTC021589	XI AND GROWING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
3	U74140PN2007PTC130975	LEXREX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
4	U01122MH1997PTC110154	GIDWANI GREENFIELDS PRIVATE LIMITED
5	U74999PN2011PTC140747	INDWAY LIFESERV PRIVATE LIMITED
6	U27300PN2009PTC134553	ELCON ELECTRO GRATINGS PRIVATE LIMITED
7	U72200PN2005PTC020245	EXANT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
8	U29220PN2010PTC137512	ENGICON AIRPROCESS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
9	U74140PN2002PTC017151	THEME FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
10	U73200PN2011PTC139161	ASHOKA TECH INVENTIONS PRIVATE LIMITED
11	U27100PN2012PTC142665	OMSAI FERROCAST PRIVATE LIMITED
12	U73100PN2010PTC136377	USER POSTULO RESEARCH PRIVATE LIMITED
13	U74900PN2012PTC144719	CORVID BUSINESS RESEARCH AND CONSULTING PRIVATE LIMITED
14	U74910PN2010PTC137149	ANSEC MANPOWER MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
15	U30007PN2007PTC129506	ASHISH XINTEGR8 SYSTEMS PRIVATE LIMITED
16	U18101PN2004PTC018977	JIJAMATA KNITTING GARMENT PRIVATE LIMITED
17	U52399PN2012PTC141889	M & N SALES & MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
18	U67190PN2008PTC132137	TANISH FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
19	U51228PN2005PTC021379	GOODWILL BEVERAGE SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED
20	U74900PN2011PTC141010	Kolhapur Terminals Private Limited
21	U60200PN2011PTC141023	Jaigad Terminals Private Limited
22	U60200PN2011PTC141022	Lavgan Terminals Private Limited
23	U60200PN2011PTC141021	Sahyadri Terminals Private Limited
24	U60200PN2011PTC141020	Chowgule Logistics Private Limited
25	U60200PN2011PTC141024	Chowgule Terminals Private Limited
26	U74900PN2011PTC140849	ALLURE SHARE BROKING PRIVATE LIMITED
27	U80221PN2012PTC145229	TRIBE EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED
28	U29130PN2009PTC134405	Cosworth India Private Limited
29	U74200PN2008PTC131605	DILIP G. KALE ARCHITECTS PRIVATE LIMITED
30	U14200PN2012PTC142486	AB MINETEK INDIA PRIVATE LIMITED
31	U15490PN2013FTC146144	Sino Veda Asia Private Limited
32	U17219PN2006PLC129050	KALLAPPANNA AWADE HI-TECH INTEGRATED TEXTILE PARK LIMITED
33	U45200PN2008PTC132067	COMPASS REALTORS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	Name of Company
34	U15549PN2004PTC019246	GOODWILL BEVERAGES PRIVATE LIMITED
35	U67200PN2011PTC141662	Optimistic Share Trading Private Limited
36	U28992PN2013PTC147979	MERITUS MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
37	U24241PN1990PTC056678	HI-Q HYGIENE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
38	U72200PN2008PTC132308	GM INFOCOMP PRIVATE LIMITED
39	U52190PN2010PTC135580	SA MEDICO LINK TRADERS PRIVATE LIMITED
40	U85110PN2008PTC131822	Lifeline Hospital & Healthcare Services Private Limited
41	U72900PN2012PTC144446	TAUS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
42	U74910PN2008PTC132683	SHAANHIL MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED
43	U45202MH1997PTC106908	PAYKO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
44	U72200PN2004PTC019684	SCHEN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
45	U72900PN2005PTC021152	QUALITY ASSURANCE INDIA SERVICES AND SYSTEMS PRIVATE LIMITED
46	U51400PN2011PTC138256	SAMARTH AGRO IMPORT & EXPORT PRIVATE LIMITED
47	U70102PN2006PTC129224	KPA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
48	U72300PN2009PTC134783	PRAXIS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
49	U45200PN1999PTC013337	GALANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED
50	U18101PN2001PTC016362	NIRMITI GARMENTS PRIVATE LIMITED
51	U29300PN2013PTC146955	WORLDWIDE POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
52	U72900PN2012PTC145499	KAP APPS PRIVATE LIMITED
53	U52100PN2011PTC140124	PMCG TRADE INDIA PRIVATE LIMITED
54	U24231PN2005PTC020545	J P - FINE SURFACE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
55	U74999PN2007PTC130408	SUMMIT TRAINING & MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
56	U15495PN2010PTC136392	JITAMITRA FOODS PRIVATE LIMITED
57	U72200PN2011FTC141379	UNIQOTEQ India Private Limited
58	U74900PN2010PTC136467	Ananta Info-Solutions Private Limited
59	U72200PN2008PTC132763	SVBP INFORMATICS PRIVATE LIMITED
60	U00892PN2006PTC022311	BIZCENTRIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
61	U31908PN2012PTC143001	SERRA POWER SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
62	U74900PN2011PTC141392	SARAK ALITER ENERGY PRIVATE LIMITED
63	U74999PN2008PTC131262	QUENCH EDUCATIONAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
64	U40106PN2010PTC136841	KG Solar Energy Private Limited
65	U51909PN2010PTC135455	SLB SALES AND MARKETING PRIVATE LIMITED
66	U74999PN2012PTC142510	JIGYASA PATHOLOGIES PRIVATE LIMITED
67	U34200PN2011PTC141233	PRIME WHEELS INDIA PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	Name of Company
68	U80903PN2008PTC132579	KILBIL EDUTECH PRIVATE LIMITED
69	U26960PN2005PTC021058	VITEKAR BROTHERS STONE CRUSHER PRIVATE LIMITED
70	U74900PN2009PTC135154	SARAK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
71	U40106PN2010PTC136840	KG Renewable Energy Private Limited
72	U45202PN1998PLC013152	SEW CONSTRUCTIONS (MAHARASHTRA) LIMITED
73	U24233PN2002PTC017531	GENUINE BIOINFORMATICS PRIVATE LIMITED
74	U29268PN2009PTC133566	SHARPTECH ENGG EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
75	U29299PN2005PTC020425	PARWAAN ENGINEERING PRIVATE LIMITED
76	U74999PN2012PTC143257	Techno Eagle India Private Limited
77	U55101PN2009PTC134741	WHITE SPOON HOTEL PRIVATE LIMITED
78	U74210PN2005PTC020788	Vision Auto Consultants AND Engineers Private Limited
79	U74999PN2010PTC136987	Sharp View Aviation Private Limited
80	U52332PN2007PTC129963	RIC HOSPITALITY EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
81	U72200PN2003PTC017554	DUKESTAR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
82	U45200PN2010PTC136101	SIMPLY INFRA PRIVATE LIMITED
83	U25209MH1997PTC109385	CLASSIC FRP PRODUCTS PRIVATE LIMITED
84	U28139PN2012PTC143505	PATLON SAFETY INTERLOCKING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
85	U72200PN2002PTC014076	BRIHANS BIORESEARCH AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
86	U92312PN2001PTC016116	AKTIVA HERBAL PRIVATE LIMITED
87	U72200PN2000PTC015385	CHITRAGUPTA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
88	U36109PN2012PTC145658	X FLOOR INTERIORS PRIVATE LIMITED
89	U74900PN2010PTC135742	D-LIGHT DECORATIVES PRIVATE LIMITED
90	U93000PN2009PTC135062	GREAT COMMISSION ALLIANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
91	U74999PN2005PTC021235	VASTU-SIDDHI RESEARCH CENTER PRIVATE LIMITED
92	U60231PN1997PTC107513	NAVJEEVAN TRANSPORT COMPANY PRIVATE LIMITED
93	U27320PN2012PTC145267	SHREE SARASWATI REMELTING & ALLOYS PRIVATE LIMITED
94	U17120PN2009PLC134623	ICHALKARANJI AND PERIPHERAL TEXTILE DEVELOPMENT LIMITED
95	U22211MH1995PTC085298	PANDIT PRATIROOP PRIVATE LIMITED
96	U45203PN2007PTC131115	STRATUM INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
97	U40100PN2010PTC137213	ASHWINI POWER PRIVATE LIMITED
98	U29100PN2011PTC140886	WEALTH ENGINEERING PRIVATE LIMITED
99	U74220MH1994PTC078794	BHASKAR VISION PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	Name of Company
100	U45200PN2010PTC136108	SHREE RAJLAXMI MULTICON INFRA PRIVATE LIMITED
101	U80900PN2009PTC134880	Solar Education And Cinema Private Limited
102	U51505PN2004PTC019364	MOPAJ EXPORTS PRIVATE LIMITED
103	U72200PN2009PTC133502	NEWSCOLLECTIVE INDIA PRIVATE LIMITED
104	U72900PN2010PTC137496	DRUTA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
105	U74999PN2011PTC139194	VISION 360 DEGREE IMAGING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
106	U51909PN2012PTC144659	ROYAL DREAMLIFE SALES & SERVICES PRIVATE LIMITED
107	U73100PN2009PTC133579	SHRI SAI MULTISPECIALITY HOSPITAL AND RESEARCH CENTER PRIVATE LIMITED
108	U15500PN2010PTC137199	BRAND WAGON BEVERAGES PRIVATE LIMITED
109	U72900PN2010FTC135978	Megha Web Services Private Limited
110	U72200PN2004PTC019851	SOLENT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
111	U72200PN2008PTC131887	A & A Solutions Private Limited
112	U74900PN2007PTC130082	SAMAR EXIM PRIVATE LIMITED
113	U55101PN2011PTC141556	KASHIDA HOTELS PRIVATE LIMITED
114	U72200PN2013PTC146653	ZION SOFTWARE TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
115	U74999PN2011PTC141286	PRITAM INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES AND EDUCONSULTANTS PRIVATE LIMITED
116	U74900PN2012PTC144095	SAIRATNA TRADECOM PRIVATE LIMITED
117	U45209PN2005PTC021492	ACE IT PARKS PROMOTERS PRIVATE LIMITED
118	U72200PN2010PTC137603	KONNET SYSTEMS PRIVATE LIMITED
119	U15421PN1993PTC074995	BHAVANI SURGARCANE PROCESS P LTD
120	U65992PN2011PTC139976	SHREE KRIPALU CHIT FUND PRIVATE LIMITED
121	U93020PN2011PTC138436	PURPLE SPA SALON PRIVATE LIMITED
122	U72200PN2008PTC132939	ECLAS INFO PRIVATE LIMITED
123	U24232PN1997PTC104922	AMRUT AUSHADHI PRIVATE LIMITED
124	U29299PN2005PTC021024	SHRIYASH ENGINEERING PRIVATE LIMITED
125	U45200PN2012PTC145198	OREY BUILDERS & ENGINEERS PRIVATE LIMITED
126	U74210PN2005PTC021547	Cogent Power Engineering Private Limited
127	U74999PN2012PTC143727	DARSHAN WAREHOUSE PRIVATE LIMITED
128	U55101PN2009PTC134296	SRIMAAN HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
129	U27320PN2010PTC135270	GENRE METAL CAST PRIVATE LIMITED

S. D. PATIL
ASST. REGISTRAR OF COMPANIES
PUNE

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Pune-411004, the 10th September 2014

No. ROCP/FTE/560(5)/2014/1529— Notice hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act 1956, that the name of following companies has this day been struck off the Register and the said company is dissolved :—

Sl. No.	CIN	Name of Company
1	U72200PN2001PTC016100	EASYMANAGE INFOTECH PRIVATE LIMITED
2	U40101PN2005PTC020247	GAMB POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
3	U51909PN2013PTC147255	GREENDAY FOODS PRIVATE LIMITED
4	U72200PN2012PTC144569	SOCIALIDEAS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
5	U24219PN2005PTC020177	SADGURU BIO-PRODUCTS PRIVATE LIMITED
6	U51909PN2010PTC137073	SHIPRA TELECOM PRIVATE LIMITED
7	U27100PN2011PTC138968	AMI Metal Product Processing Private Limited
8	U70102PN2006PTC022183	ECOSTAR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
9	U74900PN2010PTC136362	INTERNORMEN TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED
10	U72200PN2009PTC134565	SCALE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
11	U24220PN2007PTC130692	PARAS COLOURS PRIVATE LIMITED
12	U33302PN2011PTC140729	ASK AUTOMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
13	U85199PN2005PTC020521	AJIT RIVERSIDE AQUACLUUB PRIVATE LIMITED
14	U74900PN2013PTC146670	WINDSUPPORT ENERGY PRIVATE LIMITED
15	U45209PN2005PTC021101	FOCAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
16	U63033PN2012PTC142882	Arabian Masti Tourism Private Limited
17	U72900PN2011PTC138550	BIG WHALE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
18	U29253PN2012PTC145570	Electrocoat Finishing Systems Private Limited
19	U99999PN1997PTC106666	FOCUS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
20	U51229PN1994PLC080303	RAGHAVENDRA TEXTILE TRADERS LIMITED
21	U72200PN2011PTC141382	E Gens Technologies Private Limited
22	U93000PN2011PTC141423	SS MEDICO DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
23	U45201PN2006PTC021778	BLUE CITY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
24	U80930MH1995PTC084484	ARC CONSULTING AND TRAINIG PRIVATE LTD
25	U65993MH1993PTC072261	LIASON INVESTMENT AND FINANCE PVT.LTD.
26	U74900PN2013PTC147917	TUSAR ENGINEERS & FABRICATORS PRIVATE LIMITED
27	U92132PN2005PTC020848	UttamPushpa Creative Arts Private Limited
28	U24232PN2012PTC142256	Quali-Med Pharmaceuticals Private Limited
29	U72900PN2008PTC132127	KUNSKAPARNA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
30	U24297PN1998PTC012912	VDS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
31	U55101PN2003PLC017785	LIFELINE HOLIDAY HOMES LIMITED
32	U51397PN2005PLC021391	GROWMORE HEALTHCARE LIMITED

Sl. No.	CIN	Name of Company
33	U25199MH1993PTC072822	KISHORE RUBBER PRODUCTS PVT LTD
34	U31108PN2010PTC136473	TKH Engineers Private Limited
35	U40109PN2008PLC132756	ASMITA POWER LIMITED
36	U25112PN1995PTC095362	SREE KRISHNA TYRES PRIVATE LIMITED
37	U24249PN2001PTC016570	BLUTE POLYMERS PRIVATE LIMITED
38	U24230PN2008PTC132548	ATON HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
39	U74999PN1980PTC022734	JOG CONSULTANTS PVT LTD
40	U52396PN1999PTC013219	POLY EXCEL COMPANY INDIA PRIVATE LIMITED
41	U45203PN2008PTC133131	FULSUNDAR WADEKAR INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
42	U74900PN2009PTC133730	R S WIND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
43	U55101PN2003PTC018580	SAI KRISHNA HOTEL PRIVATE LIMITED
44	U74200PN2007PTC130967	FRESCO ENGINEERING PRIVATE LIMITED
45	U45200PN2009PTC133446	URAWADE GREEN REAL ESTATE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
46	U45200PN2009PTC133445	URAWADE GREEN CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
47	U45200PN2008PTC133211	URAWADE GREEN HI-TECH CITY DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
48	U72200PN2007PTC130793	SPECTRAM NANOTECH PRIVATE LIMITED
49	U45202PN2007PTC129529	PREMDEEP CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
50	U01122PN2011PTC140777	PANAMA BIRVA AGRO PRIVATE LIMITED
51	U28112PN2011PTC140223	S G M TECHOFAB PRIVATE LIMITED
52	U67200PN2007PTC130987	SILVERLINE INSURANCE CONSULTANT PRIVATE LIMITED
53	U15314PN1995PTC090505	MAHESHWARI PULSES PRIVATE LIMITED
54	U40108PN2005PTC021739	CHAPLANG WIND FARMS PRIVATE LIMITED
55	U72200PN2013PTC148524	Orient IT Solutions Private Limited
56	U72900PN2005PTC021532	APEX VANTAGE IT ENABLED SERVICES PRIVATE LIMITED
57	U74900PN2009PLC133732	PUNE INTERNATIONAL EXHIBITION AND CONVENTION CENTRE MOSHI LIMITED
58	U72200PN2007PTC129494	Sahi Technologies Private Limited
59	U72200PN2003PTC018468	DATAVAULT SOFTWARE PRIVATE LIMITED
60	U74920PN2008PTC131610	ARIA SURVEILLANCE INDIA PRIVATE LIMITED
61	U64202PN2010PTC137534	SMART TELE VENTURES COMMUNICATION EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
62	U29259MH1995PTC085320	RISHABH PACKAGING AUTOMATION PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	Name of Company
63	U74999PN2005PTC021161	TURNAROUND MEDICAL CLAIM PROCESSING PRIVATE LIMITED
64	U31200PN2004PTC019059	PUSHKAR THERMAL AND ELECTRICAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
65	U74900PN2011PTC138274	Kirin Knowledge Consulting Private Limited
66	U72200PN2011PTC138635	EFFICIENT BPO SERVICES PRIVATE LIMITED
67	U65992PN2011PTC140106	Sanskriti Chit Funds Private Limited
68	U74200PN2009PTC134864	RITHIKA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
69	U85110PN1993PTC071872	NACHIKET HOSPITALS PVT LTD
70	U70102PN2004PTC019356	ALOK PREMISES PRIVATE LIMITED
71	U65992PN2011PTC138733	SHIV MANGALMURTHY CHIT FUND PRIVATE LIMITED
72	U34300PN1989PTC052877	SAWKAR AUTOMOBILES PVT LTD
73	U51909PN1998PTC012668	MEHER JAL MARKETING PRIVATE LIMITED
74	U45200PN2011PTC140595	CONVEX CONSTRUCTION EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
75	U70101MH1997PTC111781	GALANI GREENFIELDS PRIVATE LIMITED
76	U55101PN1989PTC051148	DATTA RESORTS PVT LTD
77	U29299PN2007PTC129584	SUCHIN ACQUA SYSTEMS PRIVTE LIMITED
78	U72200PN1996PTC129334	INTERFACE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
79	U34300PN2005PTC021569	ROTAREX INDIA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
80	U33100PN2010PTC136258	Luzonix Technocrats Private Limited
81	U51229PN2004PTC018809	ADITI EXIM PRIVATE LIMITED
82	U74900PN2012PTC145567	SHREE SIDDHIVINAYAK SCANS AND IMAGING PRIVATE LIMITED
83	U85100PN2008PTC133008	DIVINATIONS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
84	U45202PN2006PTC128408	NEELES KANADE GROUP DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
85	U70102PN2000PTC015201	OMKAR VALLEY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
86	U52110PN2005PTC020695	ANMOL SUPER MALL PRIVATE LIMITED
87	U45201PN2004PTC018806	SREEMANGAL PROJECTSS PRIVATE LIMITED
88	U72200PN2005PTC020229	L3 TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
89	U22219MH1992PTC066424	FUTURA PRINTERS AND PROCESSORS PVT LTD
90	U00500PN2006PTC022229	SHAMBHAVI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
91	U45209PN2007PTC130278	DRAVID REALTY PRIVATE LIMITED --
92	U01122PN2012PTC143684	PURVEY AGRICULTURE PRIVATE LIMITED
93	U85110PN2008PTC131868	ULTRAVISION RADIOLOGY IMAGING PRIVATE LIMITED
94	U55101PN2008PTC131239	D and M Hotel Private Limited

Sl. No.	CIN	Name of Company
95	U25209PN2000PTC014892	NK INJ-PLAST PRIVATE LIMITED
96	U55101PN2011PTC141538	CURRYCULUM RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
97	U31906PN2012PTC145105	S A Tech Instruments Private Limited
98	U70101PN2008PTC131485	MAATRI REALTY PRIVATE LIMITED
99	U74210PN2005PTC020981	SPA-Tech-Auto Consultant Private Limited
100	U45400PN2012PTC145760	ASCENT REALTY PRIVATE LIMITED
101	U74900PN2008PTC132429	GWT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
102	U01200PN2010PTC136067	SAHYADRI EMU FARMS PRIVATE LIMITED
103	U72900PN2013PTC146856	Voice Data Systems Private Limited
104	U93000PN2013PTC148782	MJ Vacations Private Limited
105	U85110PN2000PTC014606	RUBY CARDIAC DIAGNOSTIC CENTRE PRIVATE LIMITED
106	U51229PN2005PTC020830	VARAD SALES AGENCY PRIVATE LIMITED
107	U72900PN2011PTC141325	Vantage Softech Engineers Private Limited
108	U17290PN2013PTC146617	SHRINATH COTFAB PRIVATE LIMITED
109	U41000PN2011PTC139551	B Y WATERS PRIVATE LIMITED
110	U45209PN2011PTC138804	GREENDREAMS REALTORS PRIVATE LIMITED
111	U74900PN2011PTC138314	VOSIV DESIGNS AND FURNISHINGS PRIVATE LIMITED
112	U74900PN2012PTC143467	AAPKA HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED
113	U74140PN2010PTC136470	Ananta Facilities Management Private Limited
114	U15139PN2009PTC134867	TOP FOODS PRIVATE LIMITED
115	U93000PN2012PTC143226	MRC MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
116	U72900PN2005PTC021062	LAUNCH DREAM ADVISORS PRIVATE LIMITED
117	U51399PN2003PTC018331	KEMIKA IMPEX PRIVATE LIMITED
118	U67120PN2000PTC144617	IRIN TRADING PRIVATE LIMITED
119	U28920PN2000PTC144618	UMA PRESSING PRIVATE LIMITED
120	U67190PN2009PTC134998	IMPUTE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
121	U52100PN2010PTC136224	Epitome Exports Private Limited
122	U74900PN2013PTC148690	TIKOTEKAR-FERNANDES ADVISORS PRIVATE LIMITED
123	U32109PN2003PTC017787	ADINATH ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
124	U18101PN2004PTC019906	RAJDHANI CLOTHIERS PRIVATE LIMITED
125	U29299PN2007PTC130951	ADITYA DESIGN & EQUIPMENT WORKS PRIVATE LIMITED
126	U67120PN1999PTC013567	RAJU MUNDADA SECURITIES PRIVATE LIMITED
127	U24119PN2012FTC144153	CHEMEON PRIVATE LIMITED
128	U74900PN2012PTC143572	Renaissance HCE Solutions Private Limited

Sl. No.	CIN	Name of Company
129	U27203PN2005PTC020112	GAINMAX ENGINEERING PRIVATE LIMITED
130	U74900PN2010PTC135751	ASK COOLING SERVICES PRIVATE LIMITED
131	U25199PN2005PTC021367	DIAMOND MATTRESS COMPANY PRIVATE LIMITED
132	U36109PN2012PTC145643	ARTY ANIMALS HOME PRODUCTS PRIVATE LIMITED
133	U85120PN2005PTC020591	ACE DENTAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
134	U51399PN2004PTC020004	RE-LINES TRADERS PRIVATE LIMITED
135	U15122PN2012PTC143844	REVA NUTRITIONS PRIVATE LIMITED
136	U74900PN2011PTC139213	H & G FUEL INDIA PRIVATE LIMITED
137	U28930PN2012PTC143341	SPARK MECHATRONICS PRIVATE LIMITED
138	U01403PN2011PTC141643	SNEHA AGRI ESTATE PRIVATE LIMITED
139	U72200PN2010PTC135572	DNA BUILDERS PRIVATE LIMITED
140	U85199PN2003PTC017571	KUMUDINI SWASTHYA NIKETAN PRIVATE LIMITED
141	U50200PN2012PTC143839	KONDUSKAR AUTO PRIVATE LIMITED
142	U74900PN2011PTC139254	SYNTHESIS EVENTS & HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
143	U30007PN1999PTC013545	KANTECH COMPUTERS PRIVATE LIMITED
144	U72900PN2011PTC138714	Tripr e-Travel Solutions Private Limited
145	U70102PN2008PTC132715	VISION LANDMARKS PRIVATE LIMITED
146	U74999PN2006PTC128815	APEX INTEGRATED SERVICES PRIVATE LIMITED
147	U29199PN2010PTC137164	INNOVATIVE INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEMS PRIVATE LIMITED
148	U15490PN2013PTC146291	AKANKSHA BEVERAGES AND AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
149	U70101PN1987PTC044003	TAARANHAAR ESTATES PRIVATE LIMITED
150	U85100PN2008PTC131905	TOPLIFE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
151	U11202PN2012PTC143017	ENERCON NEXTGEN FUELS PRIVATE LIMITED
152	U29299PN2008PTC132172	ACCURATE PRECISION MACHINES PRIVATE LIMITED
153	U21099MH1991PTC061285	VIJAY PAPER MILLS PRIVATE LIMITED
154	U24240PN2013PTC145944	VIBRANT SURFACTANTS PRIVATE LIMITED
155	U01400PN2010PTC137832	AJK AGRO PROCESSING PRIVATE LIMITED
156	U72400PN2009PTC134614	Relevansight Information Services Private Limited
157	U01122PN2010PTC137835	JLK AGRO FOODS PRIVATE LIMITED
158	U01400PN2010PTC137834	ARN AGRO SERVICES PRIVATE LIMITED
159	U01110PN2009PTC134287	R. N. AGRO FOODS PRIVATE LIMITED
160	U29299PN2008PTC131288	Himrock Equipment Private Limited

DR. AMOL SHINDE
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Puducherry—605 011, the 11th September 2014

No. 3(161) / 2014—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	2721	M/s. Medifare Private Limited
2.	1769	M/s. Circumcentre E-Solutions (I) Private Limited
3.	2095	M/s. Tamil Cottage Private Limited

C. M. KARL MARX
Registrar of Companies
Puducherry

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in